

फॉर्म 16-अचल परिसंपत्तियाँ अनुसूची

अचल परिसंपत्तियाँ

(राशि रुपये करोड़ में )

| विवरण                     | लागत/सकल ब्लॉक          |                 |               |                       | मूल्यहास परिशोधन और हानि |               |                   |                       | शुद्ध ब्लॉक          |                      |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                           | प्रारंभिक<br>01.04.2025 | जोड़            | कटौती         | 31 मार्च ,<br>2026 तक | प्रारंभिक<br>01.04.2025  | वर्ष के लिए   | बिक्री/समायोजन पर | 31 मार्च ,<br>2026 तक | मार्च 31, 2026<br>तक | मार्च 31, 2025<br>तक |
| ख्याति                    | -                       | -               | -             | -                     | -                        | -             | -                 | -                     | -                    | -                    |
| अमूर्त                    | 679.59                  | 174.52          | 0.31          | 853.80                | 414.01                   | 148.21        | 0.33              | 561.89                | 291.91               | 265.58               |
| भूमि- पूर्ण संपदा         | 25.29                   | 0.01            | 7.39          | 17.91                 | -                        | -             | -                 | -                     | 17.91                | 25.29                |
| पट्टा-भूमि                | 94.22                   | 5.24            | 37.72         | 61.74                 | 13.23                    | 1.04          | 1.73              | 12.54                 | 49.20                | 80.99                |
| भवन                       | 3,924.23                | 229.04          | 61.72         | 4,091.55              | 1,168.68                 | 97.68         | (0.66)            | 1,267.02              | 2,824.53             | 2,755.55             |
| फर्नीचर एवं फिटिंग        | 615.00                  | 28.62           | 11.40         | 632.22                | 455.50                   | 33.04         | 10.76             | 477.78                | 154.44               | 159.50               |
| सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर | 1,718.86                | 398.25          | 26.11         | 2,091.00              | 1,377.55                 | 215.84        | 25.16             | 1,568.23              | 522.77               | 341.31               |
| वाहन                      | 1,417.75                | 131.69          | 159.11        | 1,390.33              | 966.12                   | 157.96        | 135.19            | 988.89                | 401.44               | 451.63               |
| कार्यालय उपस्कर           | 69.98                   | 1.87            | 3.27          | 68.58                 | 62.30                    | 1.96          | 3.30              | 60.96                 | 7.62                 | 7.68                 |
| अन्य                      | 360.15                  | 53.75           | 12.35         | 401.55                | 312.12                   | 53.61         | 11.98             | 353.75                | 47.80                | 48.03                |
| <b>कुल</b>                | <b>8,905.07</b>         | <b>1,022.99</b> | <b>319.38</b> | <b>9,608.68</b>       | <b>4,769.51</b>          | <b>709.34</b> | <b>187.79</b>     | <b>5,291.06</b>       | <b>4,317.62</b>      | <b>4,135.56</b>      |
| कार्य प्रगति पर           | 325.60                  | 410.66          | 317.63        | 418.63                | -                        | -             | -                 | -                     | 418.63               | 325.60               |
| <b>सकल कुल</b>            | <b>9,230.67</b>         | <b>1,433.65</b> | <b>637.01</b> | <b>10,027.31</b>      | <b>4,769.51</b>          | <b>709.34</b> | <b>187.79</b>     | <b>5,291.06</b>       | <b>4,736.25</b>      | <b>4,461.16</b>      |
| <b>पिछले वर्ष का कुल</b>  | <b>8,490.35</b>         | <b>1,349.62</b> | <b>609.30</b> | <b>9,230.67</b>       | <b>4,433.38</b>          | <b>509.08</b> | <b>172.95</b>     | <b>4,769.51</b>       | <b>4,461.16</b>      | <b>-</b>             |

नोट: हिन्दी फॉर्म के किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्जन में उल्लेखित प्रावधानों को सही माना जाएगा ।